

कोरोना से बचें



सही से मास्क पहनें



हाथ धोएं बार बार



निभाएं दो गज की दूरी

जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं

कोरोना से बचें



सही से मास्क पहनें



हाथ धोएं बार बार



निभाएं दो गज की दूरी

जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं